

प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र 2022-23
विषय हिंदी (आधार)
(विषय कोड -302)
कक्षा- बारहवीं

निर्धारित समय -3 घंटे

अधिकतम अंक – 80

सामान्य और आवश्यक निर्देश-

- इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं- खंड 'अ' और 'ब'। कुल प्रश्न 13 हैं।
- खंड 'अ' में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- खंड 'ब' में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
- प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए।
- दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
- यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए।

		खंड 'अ' (वस्तुपरक प्रश्न)	
		अपठित गद्यांश	
प्रश्न 1.	निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए:-	(1x10=10)	
<p>उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। 'त्यक्तेन भुजीथाः', जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता ज़िंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े-से-बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएँ कदम-कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्मा ऐं ऐसी गोधूलि में बसती हैं जहाँ न तो जीत हँसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूलि वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है?</p> <p>जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ज़िंदगी से, अंत में, हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमे पूँजी लगाते हैं। यह पूँजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकार चलता है की ज़िंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज़ है।</p> <p>अरे ! ओ जीवन के साधकों! अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक - कोष को कौन बाहर लाएगा ?</p>			



Download FREE CBSE E-BOOKS

FREE!

CLICK HERE

दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुँच के परे मान कर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है।

(i) 'त्यक्तेन भुंजीथा:' कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है?

- (क) परिवर्जन
- (ख) परिवर्तन
- (ग) परावर्तन
- (घ) प्रत्यावर्तन

(ii) मंज़िल पर पहुँचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है, जिसने उसे -

- (क) आन की आन में प्राप्त कर लिया हो
- (ख) पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो
- (ग) हाथ बढ़ा कर मुट्ठी में कर लिया हो
- (घ) सच्चाई से अपने सपनों में बसा लिया हो

(iii) 'गोधूलि' शब्द का तात्पर्य है-

- (क) गोधेनु
- (ख) संध्यावेला
- (ग) गगन धूलि
- (घ) गोद ली कन्या

(iv) 'गोधूलि वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है -

- (क) विवशता और अभाव में जीने वाले
- (ख) जीवन को दाँव पर लगाने वाले
- (ग) गायों के खुरों से धूलि उड़ाने वाले
- (घ) क्षितिज में लालिमा फैलाने वाले

(v) जीवन में असफलताएँ मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है ?

- (क) बिना डरे आगे बढ़ता है क्योंकि डर के आगे जीत है
- (ख) पराजय से निबटने के लिए फूँक-फूँककर कदम आगे रखता है
- (ग) अपने मित्र बंधुओं से सलाह और मदद के विषय में विचार करता है
- (घ) असफलता का कारण ढूँढ़कर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है

(vi) आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति साहस की ज़िंदगी जी रहा है?

- (क) जनमत की परवाह करने वाला
- (ख) निडर और निशंक जीने वाला
- (ग) शत्रु के छक्के छुड़ाने वाला
- (घ) भागीरथी प्रयत्न करने वाला

(vii) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- (I) प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
- (II) मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य व कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है



Download FREE CBSE E-BOOKS

FREE!

CLICK HERE

<p>(III) विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है, जिससे वह पार उत्तर सके।</p> <p>उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/ हैं?</p> <p>(क) केवल I (ख) केवल III (ग) I और II (घ) II और III</p> <p>(viii) 'ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने' में कोई आनंद नहीं है? लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि ज़िंदगी-</p> <p>(क) रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करनी चाहिए। (ख) में सकारात्मक परिस्थितियाँ ही आनंद प्रदान करती हैं। (ग) में प्रतिकूलता का अनुभव जीवनोपयोगी होता है। (घ) केवल दुखद स्थितियों का सामना करवाती है।</p> <p>(ix) किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है?</p> <p>(क) जो अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं (ख) जो सुख-दुख से दूर होते हैं (ग) जो पहले दुख झेलते हैं (घ) जो सुख को अन्य लोगों से साझा करते हैं</p> <p>(x) निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए -</p> <p>कथन (A) : 'ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है' ।</p> <p>कारण (R) : ज़िंदगी रूपी फल का रसास्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना होगा ।</p> <p>(क) कथन (A) तथा कारण(R) दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। (ख) कथन (A) गलत है लेकिन कारण(R) सही है। (ग) कथन (A) तथा कारण(R) दोनों गलत हैं। (घ) कथन (A) सही है लेकिन कारण(R) उसकी गलत व्याख्या करता है।</p>	(1x5=5)
---	---------

प्रश्न 2.

निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प-चयन द्वारा दीजिए-

चिड़िया को लाख समझाओ
 कि पिंजड़े के बाहर
 धरती बड़ी है, निर्मम है,



Download FREE CBSE E-BOOKS



वहाँ हवा में उसे
बाहर जाने का टोटा है
यहाँ चुगा मोटा है।
बाहर बहेलिये का डर है
यहाँ निर्भय कंठ स्वर है।
फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी,
अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी।
यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है,
पर पानी के लिए भटकना है,
यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है।
मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी
पिंजड़े से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी,
हर सूँझोर लगाएगी
और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी।

(i) पिंजड़े के भीतर चिड़िया को क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

- (क) खाने की स्वतंत्रता, सम्मान और स्वेह
- (ख) नीर, कनक, आवास और सुरक्षा
- (ग) प्यार, पुरस्कार, भोजन और हवा
- (घ) निश्चितता, निर्भयता, नियम और नीरसता

(ii) बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति ही क्यों चाहती है?

- (क) वह अपने परिवार से मिलना चाहती है।
- (ख) वह आज़ाद जीवन जीना पसंद करती है।
- (ग) वह जीवन से मुक्ति चाहती है।
- (घ) वह लंबी उड़ान भरना चाहती है।

(iii) चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का मंतव्य है-

- (क) भयावह स्थिति उत्पन्न करना
- (ख) छोटे जीव के प्रति दया भाव
- (ग) बहेलिये से बचाव की प्रेरणा
- (घ) जीवनोपयोगी वस्तुएँ जुटाने का संघर्ष दर्शाना

(iv) पद्यांश का मूल प्रतिपाद्य क्या है?

- (क) पिंजरे में पक्षी रखने वालों को सही राह दिखाना
- (ख) पिंजड़े के भीतर और बाहर की दुनिया दिखाना
- (ग) पिंजरे के पक्षी की उड़ान और दर्द से परिचित कराना
- (घ) पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताना

(v) कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह-

- (क) प्रकृति के प्रति सचेत हैं
- (ख) चिड़िया की सुरक्षा चाहते हैं
- (ग) आज़ादी के समर्थक हैं
- (घ) अन्न-जल की उपयोगिता बताते हैं



Download FREE CBSE E-BOOKS



अथवा

हैं जन्म लेते जगह में एक ही,
एक ही पौधा उन्हें है पालता
रात में उन पर चमकता चाँद भी,
एक ही-सी चाँदनी है डालता।
मेह उन पर है बरसता एक-सा,
एक सी उन पर हवाएँ हैं बही
पर सदा ही यह दिखाता है हमें,
ढंग उनके एक से होते नहीं।

छेदकर काँटा किसी की उंगलियाँ,
फाड़ देता है किसी का वर वसन
प्यार-दूबी तितलियों का पर कतर,
भौंवर का है भेद देता श्याम तन।

फूल लेकर तितलियों को गोद में
भौंवर को अपना अनूठा रस पिला,
निज सुगंधों और निराले ढंग से
है सदा देता कली का जी खिला।

है खटकता एक सबकी आँख में
दूसरा है सोहता सुर शीश पर,
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।

(i) प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है?

- (क) फूल और तितलियों से
- (ख) फूल और पौधे से
- (ग) पौधे और चाँदनी से
- (घ) बड़प्पन की पहचान से

(ii) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- (I) सद्गुणों के कारण ही मानुस प्रेम का पात्र बनता है।
- (II) परिवेशगत समानता सदैव अव्यवस्था को जन्म देती है।
- (III) भौगोलिक परिस्थितियाँ प्राकृतिक भिन्नता का कारण हैं।

उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/ हैं?

- (क) केवल I
- (ख) केवल III
- (ग) I और II
- (घ) II और III

(iii) इस काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है?

- (क) मनुष्य के कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं।
- (ख) समान परिवेश में रहते हुए मनुष्य समान आदर पाते हैं।
- (ग) किसी भी कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य बड़ा हो सकता है।
- (घ) समान पालन-पोषण होने पर अलग व्यक्तियों के स्वभाव समान होते हैं।



Download FREE CBSE E-BOOKS

FREE!

CLICK HERE

<p>(iv) 'फाड़ देता है किसी का वर वसन' में 'वसन' शब्द का अर्थ है-</p> <p>(क) व्यसन (ख) वस्त्र (ग) वास (घ) वासना</p> <p>(v) कवितानुसार फूल निम्न में से कौन-सा कार्य नहीं करता?</p> <p>(क) भौंवरों को अपना रस पिलाता है। (ख) तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है। (ग) फल बनकर पशु-पक्षियों और मनुष्यों का पेट भरता है (घ) सुरों के शीश पर सोहता है।</p>	<p>(1x5=5)</p>									
<p>प्रश्न 3.</p> <p>निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए-</p> <p>(i) मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए ज़रूरी है--</p> <p>(क) तारतम्यता (ख) उपलब्धता (ग) एकरेखीयता (घ) साध्यता</p> <p>(ii) संबंधित घटना के दृश्य बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है-</p> <p>(क) एंकर विजुअल (ख) एंकर बाइट (ग) एंकर पैकेज (घ) ड्राई एंकर</p> <p>(iii) छह ककार के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए-</p> <p>(क) क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे (ख) किसने, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर (ग) कैसे, किससे, कब, क्यों, कितना, कौन (घ) क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने</p> <p>(iv) कॉलम 'क' का कॉलम 'ख' से उचित मिलान कीजिए-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">कॉलम 'क'</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">कॉलम 'ख'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(i) बीट रिपोर्टर</td> <td style="text-align: center;">(i) निवेशक</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(ii) फीचर</td> <td style="text-align: center;">(ii) संवाददाता</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(iii) कारोबार</td> <td style="text-align: center;">(iii) घुटने टेकना</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(iv) खेल</td> <td style="text-align: center;">(iv) कथात्मक</td> </tr> </tbody> </table> <p>(क) (i)-(iii), (ii)-(iv), (iii)-(i), (iv)-(ii) (ख) (i)-(ii), (ii)-(iv), (iii)-(i), (iv)-(iii) (ग) (i)-(iv), (ii)-(iii), (iii)-(ii), (iv)-(i) (घ) (i)-(ii), (ii)-(i), (iii)-(iv), (iv)-(iii)</p> <p>(v) विशेष लेखन के लिए सबसे ज़रूरी बात है-</p> <p>(क) चील-उड़ान और शब्द-विवेक</p>	कॉलम 'क'	कॉलम 'ख'	(i) बीट रिपोर्टर	(i) निवेशक	(ii) फीचर	(ii) संवाददाता	(iii) कारोबार	(iii) घुटने टेकना	(iv) खेल	(iv) कथात्मक
कॉलम 'क'	कॉलम 'ख'									
(i) बीट रिपोर्टर	(i) निवेशक									
(ii) फीचर	(ii) संवाददाता									
(iii) कारोबार	(iii) घुटने टेकना									
(iv) खेल	(iv) कथात्मक									



Download FREE CBSE E-BOOKS

FREE!

CLICK HERE



	<p>(ख) जादू टूटता है इस उषा का अब (ग) सूर्योदय हो रहा है (घ) गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो</p> <p>उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक अलंकार अन्योक्ति अलंकार</p> <p>(v) कवि द्वारा भोर को राख का लीपा हुआ चौंका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर का नभ -</p> <p>(क) अपनी आभा से चमकृत कर रहा है। (ख) रात के समान गर्म हवा फैला रहा है। (ग) सफेद व नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण है। (घ) नए परिवर्तन व आयामों का प्रतीक है।</p> <p>निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए-</p> <p>प्रश्न 5. कालिदास सौदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुँच सकते थे, दुख हो कि सुख, वे अपना भाव-रस उस अनासक्त कृषिवल की भाँति खींच लेते थे, जो निर्दलित ईश्वरदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे, क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानन्दन पंत में है। कविवर रवींद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा- राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने-आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अँगुली है। वह इशारा है।</p> <p>(i) कालिदास की सौदर्य-दृष्टि कैसी थी?</p> <p>(क) स्थूल और बाहरी (ख) सूक्ष्म और संपूर्ण (ग) आसक्ति और आडंबरों (घ) अतिक्रम और अभ्रभेदी</p> <p>(ii) कौन-से गुण के कारण कालिदास, सुमित्रानन्दन पंत और रवींद्रनाथ टैगोर कविताओं के साथ न्याय कर पाए?</p> <p>(क) गंतव्यता (ख) निर्दलीयता (ग) कृषिवलता (घ) तटस्थिता</p> <p>(iii) फूलों और पेड़ों से हमें जीवन की----- की प्रेरणा मिलती है--</p> <p>(क) निरंतरता (ख) भावपूर्णता (ग) समापनता (घ) अतिक्रमणता</p>	(1x5=5)
--	---	---------

<p>(iv) निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए-</p> <p>कथन (A) : पुष्य या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि यह सौंदर्य अंतिम नहीं है।</p> <p>कारण (R) : भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है।</p> <p>(क) कथन (A) तथा कारण(R) दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।</p> <p>(ख) कथन (A) गलत है लेकिन कारण(R) सही है।</p> <p>(ग) कथन (A) तथा कारण(R) दोनों गलत हैं।</p> <p>(घ) कथन (A) सही है लेकिन कारण(R) उसकी गलत व्याख्या करता है।</p> <p>(v) गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-</p> <p>(I) कला की कोई सीमा नहीं होती।</p> <p>(II) शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत के समान कहा गया है।</p> <p>(III) कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है।</p> <p>उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/ हैं?</p> <p>(क) केवल I</p> <p>(ख) केवल III</p> <p>(ग) I और II</p> <p>(घ) I और III</p> <p>निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए-</p> <p>प्रश्न 6.</p> <p>(i) 'सिल्वर वेडिंग' कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे-</p> <p>(क) पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव</p> <p>(ख) हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य</p> <p>(ग) पीढ़ी अंतराल</p> <p>(घ) सिल्वर वेडिंग के परिणाम</p> <p>(ii) 'सिल्वर वेडिंग' पाठ में 'जो हुआ होगा' वाक्य का अर्थ है-</p> <p>(क) पाश्चात्य विचारधारा के संदर्भ में</p> <p>(ख) परिवार की संरचना के संदर्भ में</p> <p>(ग) किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में</p> <p>(घ) यशोधर बाबू की नियुक्ति के संदर्भ में</p> <p>(iii) दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे?</p> <p>(क) काम जल्दी समाप्त करने के लिए</p> <p>(ख) दूसरी फसल के लिए</p> <p>(ग) गुड़ की ज्यादा कीमत के लिए</p> <p>(घ) खेत में पानी देने के लिए</p> <p>(iv) 'जूझ' उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है?</p>	<p style="text-align: right;">(1x10=10)</p>
--	---

- (क) हिंदी
- (ख) अंग्रेज़ी
- (ग) मराठी
- (घ) गुजराती

(v) लेखक आनंद यादव की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्ता है?

- (क) कुते के समान
- (ख) शेर के समान
- (ग) जंगली सूअर के समान
- (घ) चीते के समान

(vi) सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?

- (क) सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी।
- (ख) सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी।
- (ग) सिंधु घाटी की सभ्यता छोटी होते हुए भी महान थी।
- (घ) सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था।

(vii) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- (i) महाकुंड स्तूप में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं।
- (ii) मोहनजोदहो सभ्यता में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई भी होती थी।
- (iii) सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत बुरी थी।
- (iv) मोहनजोदहो से मिला नरेश के सिर का मुकुट बहुत छोटा था।

उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/ हैं?

- (क) केवल I
- (ख) केवल III
- (ग) I,II और III
- (घ) I,II और IV

(viii) राखालदास बनर्जी कौन थे?

- (क) शिक्षक
- (ख) भिक्षुक
- (ग) पुरातत्त्ववेत्ता
- (घ) व्यापारी

(ix) 'जूझ' कहानी लेखक की किस प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है?

- (क) कविता करने की प्रवृत्ति
- (ख) पढ़ने की प्रवृत्ति
- (ग) लेखन की प्रवृत्ति
- (घ) संघर्षमयी प्रवृत्ति

(x) किशोर दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे?

- (क) यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज़ थी।
- (ख) यशोधर बाबू का अपना परिवार था, जिसे वे नाराज़ नहीं करना चाहते थे।
- (ग) यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था।
- (घ) किशन दा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था, जिसे किशन दा ने



Download FREE CBSE E-BOOKS

FREE!

CLICK HERE

	स्वीकार नहीं किया।	
	खंड 'ब' -(वर्णनात्मक प्रश्न)	
प्रश्न 7.	दिए गए चार अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए –	(6x1=6)
	<p>(क) लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका</p> <p>(ख) दिया और तूफ़ान : मानव जीवन का सत्य</p> <p>(ग) झरोखे से बाहर</p> <p>(घ) आज़ादी का अमृत महोत्सवः स्वर्णिम 75 साल</p>	(3x2=6)
प्रश्न 8.	किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए-	
	<p>(क) 'कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्रंगों के विवरण के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में काफ़ी समस्या आती है।' इस कथन के संदर्भ में नाट्य रूपांतरण की किन्ही तीन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।</p> <p>(ख) रेडियो श्रव्य माध्यम है। यह ध्वनि के माध्यम से ही संप्रेषण करता है। इसलिए नाटक में ध्वनि संकेतों का विशिष्ट महत्व है। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता स्पष्ट करते हुए कोई तीन बिंदु अवश्य लिखिए।</p> <p>(ग) रट्ट या कुटेव को बुरी लत क्यों कहा गया है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है?</p>	(4x2=8)
प्रश्न 9.	निम्नलिखित तीन में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए-	(3x2=6)
	<p>(क) समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है। इस शैली का नाम बताते हुए समाचार लेखन की इस शैली को स्पष्ट कीजिए।</p> <p>(ख) बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर को स्पष्ट कीजिए।</p> <p>(ग) फीचर क्या है? फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्ही तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।</p>	
प्रश्न 10.	काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए-	(2x2=4)
	<p>(क) 'आत्मपरिचय' कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है?</p> <p>(ख) रस का अक्षयपात्र से कवि ने रचनाकर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित</p>	

	<p>किया है?</p> <p>(ग) 'विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते' पंक्ति में 'विप्लव' से क्या तात्पर्य है? 'छोटे ही हैं शोभा पाते' ऐसा क्यों कहा गया है?</p> <p>काव्य खंड पर आधारित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए-</p> <p>(क) 'पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं'-बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है?</p> <p>(ख) बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है कैसे?</p> <p>(ग) कवितावली के छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है।</p> <p>गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए-</p> <p>प्रश्न11.</p> <p>(क) बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, बस देखता है सिफ़ उसकी क्रय शक्ति को, और इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट करके लिखिए।</p> <p>(ख) कहानी के किस-किस मोड़ पर लुट्ठन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए?</p> <p>(ग) जाति-प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? स्पष्ट कीजिए।</p> <p>गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए-</p> <p>प्रश्न12.</p> <p>(क) लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत (संन्यासी) की तरह क्यों माना है?</p> <p>(ख) लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक-मड़ली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी?</p> <p>(ग) भवितन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा?</p>	<p>(3x2=6)</p> <p>(2x2=4)</p>
